

भारत सरकार  
पर्यटन मंत्रालय  
राज्य सभा  
लखत प्रश्न सं. 2215  
गुरुवार, 04 अगस्त, 2022/13 श्रावण, 1944 (शक)  
को दिया जाने वाला उत्तर

ग्रामीण पर्यटन उद्यमों को समर्थन दिया जाना

2215. श्री संदोष कुमार पी:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

- (क) क्या सरकार ने देश में ग्रामीण पर्यटन के महत्व को समझा है;
- (ख) क्या सरकार के पास उन ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं की सूची है जिन्हें वर्ष 2021 से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थलों के रूप में मान्यता मिल गई है; और
- (ग) क्या सरकार का देश में ग्रामीण पर्यटन उद्यमों को प्रोत्साहित करने और उनका समर्थन करने की परिपाटी को एक सतत परिपाटी बनाने का वचार है?

उत्तर  
पर्यटन मंत्री (श्री जी. कशन रेड्डी)

(क) से (ग) : जी हां, महोदय । ग्रामीण पर्यटन की क्षमता को पहचानते हुए पर्यटन मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण पर्यटन का विकास - आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक पहल हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति और रोडमैप तैयार किया है । यह कार्यनीतिक दस्तावेज निम्न लखत प्रमुख स्तंभों पर फोकस करता है :

- i. ग्रामीण पर्यटन हेतु मॉडल नीतियां और सर्वोत्कृष्ट कार्यपद्धतियां
- ii. ग्रामीण पर्यटन हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकियां और प्लेटफॉर्म
- iii. ग्रामीण पर्यटन हेतु क्लस्टरों का विकास
- iv. ग्रामीण पर्यटन हेतु वपणन सहायता
- v. हितधारकों का क्षमता निर्माण
- vi. शासन एवं संस्थागत कार्यवाही

ग्रामीण होमस्टे को एक अनुभवात्मक पर्यटन उत्पाद के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय ने ग्रामीण होमस्टे के संवर्धन हेतु एक राष्ट्रीय कार्यनीति तैयार की है जो ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दे सकती है और ग्रामीण लोगों को उद्यमता के अवसर प्रदान करके समुदाय विकास कर सकती है ।

पर्यटन मंत्रालय देश में ग्रामीण पर्यटन संबंधी अवसंरचना के विकास के लिए 'स्वदेश दर्शन' योजना के दिशानिर्देशों के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय द्वारा विकास हेतु परियोजनाओं की पहचान राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से की जाती है और उनके द्वारा परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने, संगत योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन, उपयुक्त वस्तु रिपोर्टों की प्रस्तुति, निधियों की उपलब्धता और पहले जारी की गई निधियों की उपयोगिता आदि की शर्त पर उन्हें स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत निधियों का ववरण अनुबंध में दिया गया है।

पर्यटन मंत्रालय ने ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पर्यटन क्षेत्र के हितधारकों को प्रोत्साहित करने के लिए 'उत्कृष्ट ग्रामीण/कृषि/खागान पर्यटन परियोजना' श्रेणी में एक राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार की स्थापना की है।

वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) द्वारा तेलंगाना में पोचमपल्ली ग्राम को उत्कृष्ट पर्यटन ग्रामों में से एक के रूप में चुना गया था।

\*\*\*\*\*

अनुबंध

ग्रामीण पर्यटन उद्यमियों को समर्थन दिये जाने के संबंध में दिनांक 04.08.2022 के राज्य सभा के लखत प्रश्न सं. 2215 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में ववरण

देश में स्वदेश दर्शन योजना के ग्रामीण परिपथ के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का ववरण

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्वीकृति वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत रा श	निर्मुक्त रा श
1.	बिहार	(2017-18)	भतिहरवा-चन्द्राहिया-तुर्को लया का विकास	44.65	35.72
2.	केरल	(2018-19)	मालानाड मालावार क्रूज पर्यटन परियोजना का विकास	80.37	23.77

\*\*\*\*\*